

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 64 ]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 11 फरवरी 2022 — माघ 22, शक 1943

वाणिज्यिक कर विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 19 जनवरी 2022

अधिसूचना  
संख्या 14/2021 — राज्य कर (दर)

क्रमांक एफ 10-03/2022/वाक/पांच(09).— छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की धारा 9 की उप-धारा (1) और धारा 15 की उप-धारा (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना सं. 01/2017- राज्य कर (दर) क्रमांक एफ-10-43/2017/वाक/पांच(69) दिनांक 28 जून, 2017 जिसे छत्तीसगढ़ के राजपत्र (असाधारण) में, क्रमांक 252 तारीख 29 जून, 2017 में प्रकाशित किया गया था, में आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में-

क. अनुसूची I – 2.5% में, -

- (i) क्र.सं. 203, 207, 211, 216, 217, 218, 218ख, 218ग, 219क, 219कक, 219ख, 220, 221, 222, 223, 224, 224क एवं 225 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरस्त किया जाएगा ;

ख. अनुसूची II – 6% में, -

- (i) क्रम संख्याम 132क और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरस्त किया जाएगा;
- (ii) क्रम संख्याख 132क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्न लिखित क्रम संख्या1 और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“132कक	5007	सिल्कफ़ा सिल्क अपशिष्ट से बुने हुए कपड़े
132कख	5111	कार्डेड ऊन या पशुओं के कार्डेड फाईन हेयर से बुने हुए कपड़े
132कग	5112	कोमड ऊन या पशुओं के कोमड फाईन हेयर से बुने हुए कपड़े
132कघ	5113	पशुओं के कोयर्स हेयर या घोड़ों के बाल से बने हुए कपड़े
132कड.	5208	बुने हुए सूती कपड़े जिसमें कपास भार के हिसाब से 85% या इससे अधिक हो,

		जिनका भार 200g/m <sup>2</sup> से अधिक न हो
132कच	5209	बुने हुए सूती कपड़े जिसमें कपास भार के हिसाब से 85% या इससे अधिक हो, जिनका भार 200g/m <sup>2</sup> से अधिक हो
132कछ	5210	बुने हुए सूती कपड़े जिसमें कपास भार के हिसाब से 85% से कम हो, जो कि मुख्यतः या पूर्ण रूप से मानव निर्मित फाइबर्स से मिश्रित हो, जिनका भार 200g/m <sup>2</sup> से अधिक न हो
132कज	5211	बुने हुए सूती कपड़े जिसमें कपास भार के हिसाब से 85% से कम हो, जो कि मुख्यतः या पूर्ण रूप से मानव निर्मित फाइबर्स से मिश्रित हो, जिनका भार 200g/m <sup>2</sup> से अधिक हो
132कझ	5212	अन्य बुने हुए सूती कपड़े
132कञ	5309	फ्लैक्सन के बुने हुए कपड़े
132कट	5310	जूट या अन्य टेक्सटाईल बास्टनफाइबर्स जो कि शीर्षक 5303 के अंतर्गत आता है, से बुने हुए कपड़े
132कठ	5311	अन्य वानस्पति टेक्स्टाईल फाइबर से बुने हुए कपड़े ; पेपर यार्न से बुने हुए कपड़े”;

(iii) क्रम संख्या 132ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरस्त किया जाएगा;

(iv) क्रम संख्या 132ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चातत निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“132खक	5401	मानव निर्मित फिलामेंट से बने सिलाई के धागे , चाहे इनकी खुदरा बिक्री की जानी हो या नहीं
132खख	5402	सिंथेटिक फिलामेंट यार्न (सिलाई के धागे से भिन्न) , जो खुदरा बिक्री के लिए न हों, जिनमें 67 डेसीटेक्सभ से कम का सिंथेटिक मोनोफिलामेंट भी शामिल है
132खग	5403	आर्टिफिशियल फिलामेंट यार्न (सिलाई के धागे से भिन्न) , जो खुदरा बिक्री के लिए न हों, जिनमें 67 डेसीटेक्सभ से कम का आर्टिफिशियल मोनोफिलामेंट भी शामिल है
132खघ	5404	67 डेसीटेक्स या इससे अधिक का सिंथेटिक मोनोफिलामेंट, और जिसका क्रॉस-सेक्शन नल डायमेंशन 1 मि.मी. से अधिक न हो; सिंथेटिक टेक्स टाईल सामग्री की पट्टियां और इसी प्रकार की वस्तुएं (जैसे कि आर्टिफिशियल स्ट्राह) ऊपरी तौर पर जिनकी चौड़ाई 5 मि.मी. से अधिक न हो
132खड.	5405	67 डेसीटेक्स या इससे अधिक का आर्टिफिशियल मोनोफिलामेंट, और जिसका क्रॉस-सेक्शनल डायमेंशन 1 मि.मी. से अधिक न हो ; सिंथेटिक टेक्सटाईल सामग्री की पट्टियां और इसी प्रकार की वस्तुएं (जैसे कि आर्टिफिशियल स्ट्राह) , ऊपरी तौर पर जिनकी चौड़ाई 5 मि.मी. से अधिक न हो
132खच	5406	मानव निर्मित फिलामेंट यार्न (सिलाई के धागे से भिन्न ) जिसे खुदरा बिक्री के लिए रखा गया हो
132खछ	5407	सिंथेटिक फिलामेंट यार्न से बुने हुए कपड़े , जिसमें वे बुने हुए कपड़े भी आते हैं जो शीर्षक 5404 की सामग्री से प्राप्त किए गए हों
132खज	5408	आर्टिफिशियल फिलामेंट यार्न से बुने हुए कपड़े, जिसमें वे बुने हुए कपड़े भी आते हैं जो शीर्षक 5405 की सामग्री से प्राप्ति किए गए हों

(v) क्रम संख्या 132ग और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरस्त किया जाएगा;

(vi) क्रम संख्या 132ग और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

132गक	5501	सिंथेटिक फिलामेंट टो
132गख	5502	आर्टिफिशियल फिलामेंट टो
132गग	5503	सिंथेटिक स्टेपल फाइबर्स जो कार्डेड न हों, जो कताई के लिए कोम्बड या अन्य प्रकार से परिष्कृत न किए गए हों
132गघ	5504	आर्टिफिशियल स्टेपल फाइबर्स जो कार्डेड न हों, जो कताई के लिए कोम्बड या अन्य प्रकार से परिष्कृत न किए गए हों
132गड.	5505	मानव निर्मित फाइबर्स के अपशिष्ट (जिसमें नोएल्सर, यार्न अपशिष्ट और गार्नेटेड स्टॉक भी आता है)
132गच	5506	सिंथेटिक स्टेपल फाइबर्स जो कार्डेड हों, जो कताई के लिए कोम्बड या अन्य प्रकार से परिष्कृत किए गए हों
132गछ	5507	आर्टिफिशियल स्टेपल फाइबर्स जो कार्डेड हों, जो कताई के लिए कोम्बड या अन्य प्रकार से परिष्कृत किए गए हों
132गज	5508	मानव निर्मित स्टेपल फाइबर्स से बने सिलाई के धागे चाहे इनकी खुदरा बिक्री की जानी हो या नहीं
132गझ	5509	सिंथेटिक स्टेपल फाइबर्स के यार्न (सिलाई धागे से भिन्न) जो कि खुदरा बिक्री के लिए न हों
132गब	5510	आर्टिफिशियल स्टेपल फाइबर्स के यार्न (सिलाई धागे से भिन्न), जो कि खुदरा बिक्री के लिए न हों
132गट	5511	मानव निर्मित स्टेपल फाइबर्स के यार्न (सिलाई धागे से भिन्न), जो कि खुदरा बिक्री के लिए हों
132गठ	5512	सिंथेटिक स्टेपल फाइबर्स के बुने हुए कपड़े, जिनमें सिंथेटिक स्टेपल फाइबर्स भार के हिसाब से 85% या इससे अधिक हों
132गड	5513	सिंथेटिक स्टेपल फाइबर्स के बुने हुए कपड़े जिनमें ऐसा फाइबर्स 85 % से कम हो, जिसमें कपास मुख्य रूप से या पूर्णतया मिश्रित हो, जिनका भार 170 g/m <sup>2</sup> से अधिक न हो
132गढ	5514	सिंथेटिक स्टेपल फाइबर्स के बुने हुए कपड़े जिनमें ऐसा फाइबर्स 85 % से कम हो, जिसमें कपास मुख्य रूप से या पूर्णतया मिश्रित हो, जिनका भार 170 g/m <sup>2</sup> से अधिक हो
132गण	5515	सिंथेटिक स्टेपल फाइबर्स के बुने हुए अन्य कपड़े
132गत	5516	आर्टिफिशियल स्टेपल फाइबर्स के बुने हुए कपड़े;

(vii) क्रम संख्या 132घ और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरस्त किया जाएगा;

(viii) क्रम संख्या 139 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थाग्न पर, प्रविष्टि "टिवन, कार्डेज, रस्सियां और केबल्स, चाहे ये प्लेटेड या ब्रेडेड हों या नहीं और चाहे रबर या प्लास्टिक से इम्प्रेनग्रेयटेड, कोटेड या सिदेड हो या नहीं", को प्रतिस्थापित किया जाएगा

(ix) क्रम संख्या 139 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"139क	5608	ट्विन, कार्डेज या रस्सियों के नोटेड नटिंग्स <sup>2</sup> फिशिंग नेट्स के मेड अप्स <sup>3</sup> और अन्या मेड अप्स नेट्सटेक्सyटाईलिस सामग्री के
-------	------	---

- (x) क्रम संख्या 146 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"146क	5801	बुने हुए पाईल फेब्रिक्स और शीनाईल फेब्रिक्स , उन फेब्रिक्स- से भिन्न जो शीर्षक 5802 या 5806 के अंतर्गत आते हैं
-------	------	--

- (xi) क्रम संख्या 151 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्न लिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"151क	5806	नैरो ओवैन फेब्रिक्स शीर्षक 5807 के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं से भिन्न नैरो फेब्रिक्स जो कि बिना वेफ्ट के वार्प से बने हों , और चिपकाने वाले पदार्थ (बोल्ड क्स ) से जुड़े हों
-------	------	---

- (xii) क्रम संख्या 154 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "ब्रेड नग में ; अलंकृत झालरें, बिना कशिदाकारी की , बुनी या क्रोशियाकृत से भिन्न( , झब्बाकफून्दा ना और वैसी ही वस्तुएं", को प्रतिस्थापित किया जाएगा

- (xiii) क्रम संख्या 155 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर , प्रविष्टि "मेटल थ्रेड से बुने हुए कपड़े और शीर्षक 5605 के अंतर्गत आने वाले धातुकृत यार्न के बुने हुए कपड़े , जिनका प्रयोग परिधानों में किया जाता हो, फर्निशिंग फेब्रिक्स या अन्ये उद्देश्य) के लिए जिनका उपयोग होता हो, जो अन्य कहीं उल्लिखित न हो", को प्रतिस्थापित किया जाएगा

- (xiv) क्रम संख्या 156 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "कशिदाकारी जो नग में , पट्टियों में या मोटिप्स में हों", को प्रतिस्थापित किया जाएगा

- (xv) क्रम संख्या 168 के समक्ष, कॉलम (3) में, शब्दसंज्ञा अध्याय के स्थान पर अध्याय 59 को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

- (xvi) क्रम संख्या 168 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात्:-

"168क	6001	पाईल फेब्रिक्स, जिसमें "लांग पाईल" फेब्रिक्स और टेरी फेब्रिक्स भी आते हैं, जो निटेड या क्रोचेटिड हों
168ख	6002	निटेड या क्रोचेटिड फेब्रिक्स, जिसकी चौड़ाई 30 सेंटीमीटर से अधिक न हों, जिसमें इलास्टोरमरिक यार्न या रबर थ्रेड भार के हिसाब 5% या अधिक हो, उनसे भिन्न जो शीर्षक 6001 के अंतर्गत आते हैं
168ग	6003	निटेड या क्रोचेटिड फेब्रिक्स , जिसकी चौड़ाई 30 सेंटीमीटर से अधिक न हो, उनसे भिन्न जो शीर्षक 6001 या 6002 के अंतर्गत आते हैं
168घ	6004	निटेड या क्रोचेटिड फेब्रिक्स , जिसकी चौड़ाई 30 सेंटीमीटर से अधिक हो , जिनमें इलास्टोरमरिक यार्न या रबर थ्रेड भार का हिसाब 5 % या अधिक हो, उनसे भिन्न जो शीर्षक 6001 के अंतर्गत आते हैं
168ङ.	6005	वार्प निट फेब्रिक्स (जिसमें वे भी आते हैं जो गैलून निटिंग मशीन्स पर बने हों), उनसे भिन्न जो शीर्षक 6001 से 6004 तक में आते हों

168च	6006	अन्य नितेड या क्रोचेटिड फेब्रिक
------	------	---------------------------------

- (xvii) क्रम संख्या 69 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "परिधान की वस्तुएं और कपड़ों के उपसाधन, नितेड या क्रोचेटिड", को प्रतिस्थापित किया जाएगा
- (xviii) क्रम संख्या 70 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "परिधान की वस्तुएं और कपड़ों के उपसाधन, नितेड या क्रोचेटिड न हों", को प्रतिस्थापित किया जाएगा
- (xix) क्रम संख्या 171 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरस्त किया जाएगा ;
- (xx) क्रम संख्या 171क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर , निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात्:-

171क1	6301	कंबल और ट्रेवलिंग रग्स
171क2	6302	बेड लिनन, टेबल लिनन, टायलेट लिनन और किचन लिनन
171क3	6303	कर्टेन्स (ड्रैप्स समेत ) और इंटरियर ब्लॉकइंडसर्टेन या बेड वेलेन्सेमस
171क4	6304	फर्निशिंग की अन्य वस्तुएं, जिनसे भिन्न जो शीर्षक 9404 के अंतर्गत आते हैं
171क5	6305 [63053200 के अलावा]	बोरे और थैले , जिनका प्रयोग वस्तुओं की पैकिंग में किया जाता हो [पोलीएथीलीन या पोलीप्रोपइलीन स्ट्रिप्स और इसी प्रकार के पदार्थों से बने व्युतित या अव्युतित बैग्स और सैक्स, चाहे ये लैमिनेटेड हों या नहीं, जिनका प्रयोग वस्तुओं के पैकिंग में किया जाता हो और फ्लेक्सिबल इंटरमीडीएट ब्लॉक कंटेनर्स के अलावा
171क6	6306	तिरपाल, शामियाना और सनब्लाइंड्स; तंबू; नावों के लिए पाल , सेलबोर्ड या लैंडक्राफ्ट; शिविर के सामान
171क7	6307	अन्य विनिर्मित वस्तु, टैप्स पेटर्न्स समेत
171क8	6308	सेट्स, जो कि वोवेन फेब्रिक्स या यार्न से बने हों , चाहे इनमें सहायक सामग्री लगी हो या नहीं, जो कि गलीचे, टेपेस्ट्री, कशीदाकारी टेबल क्लॉथ या सर्वियेट्स या इसी प्रकार के कपड़े की वस्तुओं के बनाने के लिए प्रयोग में आते हों, जिनको खुदरा बिक्री के लिए पैकिंग्स में रखा गया हो
171क9	6309	पहने गए कपड़े और पहनी गई अन्य वस्तुएं
171क10	6310	प्रयोग में लाए गए या नए रैग्स , स्क्रैप्स, स्वाइन , कोर्डेज , रस्सियां और केबल्स तथा ट्वाइन , कोर्डेज , रस्सियां और केबल्स की प्रयोग की हुई वस्तुएं, एक्सट्राईल्स सामग्री के;
171क11	64	फुटवियर, जिनका बिक्री मूल्य 1000 रुपए प्रति जोड़ी से अधिक न हो।

ग. अनुसूची III – 9% में, -

- (झ) क्रम संख्या 159, 160, 161, 162 एवं 163 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरस्त किया जाएगा ।

2. यह अधिसूचना, जब तक कि अन्यथा न बताया जाए 1 जनवरी, 2022 से लागू माना जाएगा ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

अटल नगर, दिनांक 19 जनवरी 2022

क्रमांक एफ 10-03/2022/वाक/पांच(09).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-03/2022/वाक/पांच(09), दिनांक 19-01-2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

Atal Nagar, the 19th January 2022

## NOTIFICATION

No. 14/2021 – State Tax (Rate)

No. F 10- 03/2022/CT/V(09) .— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 and sub-section (5) of section 15 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of No. 01/2017–State Tax (Rate), No. F-10-43/2017/CT/V(69), Chhattisgarh Commercial Tax Department, dated the 28th June, 2017, published in the Gazette (Extraordinary) of Chhattisgarh, No. 252, dated the 29th June, 2017, namely:-

In the said notification, -

- a. in Schedule I – 2.5%, -
  - (i) S. Nos. 203, 207, 211, 216, 217, 218, 218B, 218C, 219A, 219AA, 219B, 220, 221, 222, 223, 224, 224A and 225 and the entries relating thereto shall be omitted;
- b. in Schedule II – 6%, -
  - (i) S. No. 132A and the entries relating thereto shall be omitted;
  - (ii) after S. No. 132A and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely:-

“132AA	5007	Woven fabrics of silk or of silk waste.
132AB	5111	Woven fabrics of carded wool or of carded fine animal hair.
132AC	5112	Woven fabrics of combed wool or of combed fine animal hair.
132AD	5113	Woven fabrics of coarse animal hair or of horse hair.
132AE	5208	Woven fabrics of cotton, containing 85% or more by weight of cotton, weighing not more than 200g/m2.
132AF	5209	Woven fabrics of cotton, containing 85% or more by weight of cotton, weighing more than 200g/m2.
132AG	5210	Woven fabrics of cotton, containing less than 85% by weight of cotton, mixed mainly or solely with man-made fibres, weighing not more than 200g/m2.
132AH	5211	Woven fabrics of cotton, containing less than 85% by weight of cotton, mixed mainly or solely with man-made fibres, weighing more than 200g/m2.
132AI	5212	Other woven fabrics of cotton.
132AJ	5309	Woven fabrics of flax.
132AK	5310	Woven fabrics of jute or of other textile bast fibres of heading 5303.
132AL	5311	Woven fabrics of other vegetable textile fibres; woven fabrics of paper yarn.”;

- (iii) S. No. 132B and the entries relating thereto shall be omitted;
- (iv) after S. No. 132B and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely:-

“132BA	5401	Sewing thread of man-made filaments, whether or not put up for retail sale.
132BB	5402	Synthetic filament yarn (other than sewing thread), not put up for retail sale, including synthetic monofilament of less than 67 decitex.
132BC	5403	Artificial filament yarn (other than sewing thread), not put up for retail sale, including artificial monofilament of less than 67 decitex.
132BD	5404	Synthetic monofilament of 67 decitex or more and of which no cross-sectional dimension exceeds 1 mm; strip and the like (for example, artificial straw) of synthetic textile materials of an apparent width not exceeding 5 mm.
132BE	5405	Artificial monofilament of 67 decitex or more and of which no cross-sectional dimension exceeds 1 mm; strip and the like (for example, artificial straw) of artificial textile materials of an apparent width not exceeding 5 mm.
132BF	5406	Man-made filament yarn (other than sewing thread), put up for retail sale.
132BG	5407	Woven fabrics of synthetic filament yarn, including woven fabrics obtained from materials of heading 5404.
132BH	5408	Woven fabrics of artificial filament yarn, including woven fabrics obtained from materials of heading 5405.”;

(v) S. No. 132C and the entries relating thereto shall be omitted;

(vi) after S. No. 132C and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely:-

“132CA	5501	Synthetic filament tow.
132CB	5502	Artificial filament tow
132CC	5503	Synthetic staple fibres, not carded, combed or otherwise processed for spinning.
132CD	5504	Artificial staple fibres, not carded, combed or otherwise processed for spinning.
132CE	5505	Waste (including noils, yarn waste and garnetted stock) of man-made fibres.
132CF	5506	Synthetic staple fibres, carded, combed or otherwise processed for spinning.
132CG	5507	Artificial staple fibres, carded, combed or otherwise processed for spinning.
132CH	5508	Sewing thread of man-made staple fibres, whether or not put up for retail sale.
132CI	5509	Yarn (other than sewing thread) of synthetic staple fibres, not put up for retail sale.
132CJ	5510	Yarn (other than sewing thread) of artificial staple fibres, not put up for retail sale.
132CK	5511	Yarn (other than sewing thread) of man-made staple fibres, put up for retail sale.
132CL	5512	Woven fabrics of synthetic staple fibres, containing 85% or more by weight of synthetic staple fibres.
132CM	5513	Woven fabrics of synthetic staple fibres, containing less than 85% by weight of such fibres, mixed mainly or solely with cotton, of a weight not exceeding 170 g/m <sup>2</sup> .
132CN	5514	Woven fabrics of synthetic staple fibres, containing less than 85% by weight of such fibres, mixed mainly or solely with cotton, of a weight exceeding 170 g/m <sup>2</sup> .
132CO	5515	Other woven fabrics of synthetic staple fibres.
132CP	5516	Woven fabrics of artificial staple fibres.”;

- (vii) S. No. 132D and the entries relating thereto shall be omitted;
- (viii) against S. No. 139, in column (3), for the entry, the entry "Twine, cordage, ropes and cables, whether or not plaited or braided and whether or not impregnated, coated or sheathed with rubber or plastics." shall be substituted;
- (ix) after S. No. 139 and the entries relating thereto, the following S.No. and entries shall be inserted, namely:-

"139A	5608	Knotted netting of twine, cordage or rope; made up of fishing nets and other made up nets, of textile materials.";
-------	------	--

- (x) after S. No. 146 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

"146A	5801	Woven pile fabrics and chenille fabrics, other than fabrics of heading 5802 or 5806.";
-------	------	--

- (xi) after S. No. 151 and the entries relating thereto, the following S.No. and entries shall be inserted, namely:-

"151A	5806	Narrow woven fabrics, other than goods of heading 5807; narrow fabrics consisting of warp without weft assembled by means of an adhesive (bolducs).";
-------	------	---

- (xii) against S. No. 154, in column (3), for the entry, the entry "Braids in the piece; ornamental trimmings in the piece, without embroidery, other than knitted or crocheted; tassels, pompons and similar articles." shall be substituted;
- (xiii) against S. No. 155, in column (3), for the entry, the entry "Woven fabrics of metal thread and woven fabrics of metallised yarn of heading 5605, of a kind used in apparel, as furnishing fabrics or for similar purposes, not elsewhere specified or included." shall be substituted;
- (xiv) against S. No. 156, in column (3), for the entry, the entry "Embroidery in the piece, in strips or in motifs." shall be substituted;
- (xv) against S. No. 168, in column (3), for the words "this Chapter", the word and the figure "Chapter 59" shall be substituted;
- (xvi) after S. No. 168 and the entries relating thereto, the following serial numbers and the entries shall be inserted, namely:-

"168A	6001	Pile fabrics, including "long pile" fabrics and terry fabrics, knitted or crocheted.
168B	6002	Knitted or crocheted fabrics of a width not exceeding 30 cm, containing by weight 5% or more of elastomeric yarn or rubber thread, other than those of heading 6001.
168C	6003	Knitted or crocheted fabrics of a width not exceeding 30 cm, other than those of heading 6001 or 6002.
168D	6004	Knitted or crocheted fabrics of a width exceeding 30 cm, containing by weight 5% or more of elastomeric yarn or rubber thread, other than those of heading 6001.
168E	6005	Warp knit fabrics (including those made on galloon knitting machines), other than those of headings 6001 to 6004.
168F	6006	Other knitted or crocheted fabrics.";

- (xvii) against S. No. 169, in column (3), for the entry, the entry "Articles of apparel and clothing accessories, knitted or crocheted." shall be substituted;
- (xviii) against S. No. 170, in column (3), for the entry, the entry "Articles of apparel and clothing accessories, not knitted or crocheted." shall be substituted;
- (xix) S. No. 171 and the entries relating thereto shall be omitted;



- (xx) after S. No. 171A and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely:-

“171A1	6301	Blankets and travelling rugs.
171A2	6302	Bed linen, table linen, toilet linen and kitchen linen.
171A3	6303	Curtains (including drapes) and interior blinds; curtain or bed valances.
171A4	6304	Other furnishing articles, excluding those of heading 9404.
171A5	6305 [other than 63053200]	Sacks and bags, of a kind used for the packing of goods [other than woven and non-woven bags and sacks of polyethylene or polypropylene strips or the like whether or not laminated of a kind used for packing of goods and flexible intermediate bulk containers
171A6	6306	Tarpaulins, awnings and sunblinds; tents; sails for boats, sailboards or landcraft; camping goods.
171A7	6307	Other made up articles, including dress patterns.
171A8	6308	Sets, consisting of woven fabric and yarn, whether or not with accessories, for making up into rugs, tapestries, embroidered table cloths or serviettes, or similar textile articles, put up in packings for retail sale.
171A9	6309	Worn clothing and other worn articles.
171A10	6310	Used or new rags, scrap, twine, cordage, rope and cables and worn out articles of twine, cordage, rope or cables, of textile materials.
171A11	64	Footwear of sale value not exceeding Rs.1000 per pair.”

c. in Schedule III – 9%, -

- (i) S. Nos. 159, 160, 161, 162 and 163 and the entries relating thereto shall be omitted.

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 1st day of January, 2022, unless otherwise stated.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,  
GAURAV DWIVEDI, Principal Secretary.

अटल नगर, दिनांक 19 जनवरी 2022

अधिसूचना

संख्या 15/2021 – राज्य कर (दर)

क्रमांक एफ 10-03/2022/वाक/पांच (10).— छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की धारा 9 की उप धारा (1), उप धारा (3) और उप धारा (4), धारा 11 की उप धारा (1), धारा 15 की उप धारा (5), धारा 16 की उप धारा (1) और धारा 148 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और इस परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना सं. 11/2017-राज्य कर (दर) क्रमांक एफ-10-43/2017/वाक/पांच(79) दिनांक 28 जून, 2017, जिसे छत्तीसगढ़ के राजपत्र (असाधारण) में, क्रमांक 252 तारीख 29 जून, 2017 में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है यथा:-

उक्त अधिसूचना में सारणी में,-

- (i) क्रम संख्याम 3 के समक्ष

- (1) कॉलम (3) में, शीर्षक 'सेवा का वर्णन' में, मद (iii) में, शब्दों और प्रतीकों "संघ राज्य क्षेत्र, स्थानीय प्राधिकरण, सरकारी प्राधिकरण अथवा सरकारी निकाय" के स्थान पर, शब्दों और प्रतीकों "संघ राज्य क्षेत्र अथवा स्थानीय प्राधिकरण" को प्रतिस्थापित किया जाएगा ;
- (2) कॉलम (3) में, शीर्षक 'सेवा का वर्णन' में, मद (vi) में, शब्दों और प्रतीकों "संघ शासित क्षेत्र, किसी स्थानीय प्राधिकरण, किसी सरकारी प्राधिकरण अथवा किसी सरकारी निकाय" के स्थान पर, शब्दों और प्रतीकों "संघ राज्यक्षेत्र अथवा स्थानीय प्राधिकरण" को प्रतिस्थापित किया जाएगा ;
- (3) कॉलम (3) में, शीर्षक 'सेवा का वर्णन' में, मद (vii) में, शब्दों और प्रतीकों "संघ राज्यी क्षेत्र, स्थानीय प्राधिकरण, एक सरकारी प्राधिकरण या किसी सरकारी इकाई" के स्थान पर, शब्दों और प्रतीकों "संघ राज्य क्षेत्र अथवा स्थानीय प्राधिकरण" को प्रतिस्थापित किया जाएगा ;
- (4) कॉलम (3) में, शीर्षक 'सेवा का वर्णन' में, मद (ix) और (x) में, शब्दों और प्रतीकों "संघ राज्य या किसी स्थानीय प्राधिकरण या सरकारी प्राधिकरण या किसी सरकारी निकाय" के स्थान पर, शब्दों और प्रतीकों "संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण" को प्रतिस्थापित किया जाएगा ;
- (5) कॉलम (5) में, शीर्षक 'शर्त' में, मद (iii), (vi), (vii), (ix) और (x) के सामने की प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;
- (ii) क्रम संख्या 26 के समक्ष, कॉलम (3) में, शीर्षक 'सेवा का वर्णन' में, मद (i) में, उप मद (ख) में, शब्दों "वस्त्र एवं वस्त्रय उत्पादों के पश्चात्, प्रतीकों और शब्दों ", उनकी रंगी या छपाई के माध्यम से सेवाओं को छोड़कर ", को अंतःस्थापित किया जाएगा।

2. इस अधिसूचना को 1 जनवरी, 2022 से लागू माना जाएगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

अटल नगर, दिनांक 19 जनवरी 2022

क्रमांक एफ 10-03/2021/वाक/पांच(10).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-03/2022/वाक/पांच(10), दिनांक 19-01-2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

Atal Nagar, the 19th January 2022

NOTIFICATION  
No. 15/2021 – State Tax (Rate)

No. F 10-03/2022/CT/V(10).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1), sub-section (3) and sub-section (4) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15, sub-section (1) of section 16 and section 148 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017), the State Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification No. 11/2017–State Tax (Rate), No. F-10-43/2017/CT/V(79), Chhattisgarh Commercial Tax Department, dated the 28th June, 2017, published in the Gazette (Extraordinary) of Chhattisgarh, No. 252, dated the 29th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the TABLE, -

- (i) against serial number 3,-

- (1) in column (3), in the heading “Description of Service”, in items (iii),(vi),(ix) and (x), for the words “Union territory, a local authority, a Governmental Authority or a Government Entity” the words “Union territory or a local authority” shall be substituted;
  - (2) in column (3), in the heading “Description of Service”, in item (vii), for the words “Union territory, local authority, a Governmental Authority or a Government Entity” the words “Union territory or a local authority” shall be substituted;
  - (3) in column (5), in the heading “Condition”, the entries against items (iii),(vi),(vii),(ix) and (x), shall be omitted;
  - (ii) against serial number 26, in column (3), in the heading “Description of Service”, in item (i), in clause (b), after the words, numbers, figures and brackets “Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975)” the words “except services by way of dyeing or printing of the said textile and textile products” shall be inserted.
2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 1st day of January, 2022.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,  
GAURAV DWIVEDI, Principal Secretary.

अटल नगर, दिनांक 19 जनवरी 2022

अधिसूचना  
संख्या 16/2021 – राज्य कर (दर)

क्रमांक एफ 10-03/2022/वाक/पांच (11).— छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की धारा 9 की उप धारा (3) और उप धारा (4), धारा 11 की उप धारा (1), धारा 15 की उप धारा (5), और धारा 148 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना सं. 12/2017-राज्य कर (दर) क्रमांक एफ-10-43/2017/वाक/पांच(80) दिनांक 28 जून, 2017, जिसे छत्तीसगढ़ के राजपत्र (असाधारण) में, क्रमांक 252 तारीख 29 जून, 2017 में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,-

- (i) क्रम संख्या 3 के समक्ष, कॉलम (3) में, शीर्षक ‘सेवा का वर्णन’ में, “या सरकारी प्राधिकरण या सरकारी निकाय” शब्दों का लोप किया जाएगा
- (ii) क्रम संख्या 3 के समक्ष, कॉलम (3) में, शीर्षक ‘सेवा का वर्णन’ में, “या सरकारी प्राधिकरण या सरकारी निकाय” शब्दों का लोप किया जाएगा
- (iii) क्रम संख्या 15 के समक्ष, कॉलम (3) में, शीर्षक ‘सेवा का वर्णन’ में, मद (ग) के बाद निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा यथा:-  
“बशर्ते कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से आपूर्ति की जाने वाली और छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की धारा 9 की उप धारा (5) के तहत अधिसूचित सेवाओं पर उपरोक्त मद (ख) और (ग) में शामिल कुछ भी लागू नहीं होगा”;
- (iv) क्रम संख्या 17 के समक्ष, कॉलम (3) में, शीर्षक ‘सेवा का वर्णन’ में, मद (ड.) के बाद निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा यथा:-  
“बशर्ते कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से आपूर्ति की जाने वाली और छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की धारा 9 की उप धारा (5) के तहत अधिसूचित सेवाओं पर, उपरोक्त मद (ड.) में शामिल कुछ भी लागू नहीं होगा”।

2. इस अधिसूचना को 1 जनवरी, 2022 से लागू माना जाएगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

अटल नगर, दिनांक 19 जनवरी 2022

क्रमांक एफ 10-03/2022/वाक/पांच(11).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-03/2022/वाक/पांच(11), दिनांक 19-01-2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

Atal Nagar, the 19th January 2022

NOTIFICATION  
No. 16/2021 – State Tax (Rate)

No. F 10-03/2022/CT/V(11) .- In exercise of the powers conferred by sub-sections (3) and (4) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15 and section 148 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017), the State Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification No. 12/2017–State Tax (Rate), No. F-10-43/2017/CT/V(80), Chhattisgarh Commercial Tax Department, dated the 28th June, 2017, published in the Gazette (Extraordinary) of Chhattisgarh, No. 252, dated the 29th June, 2017, namely:—

In the said notification, in the TABLE, -

- (i) against serial number 3, in column (3), in the heading “ Description of Services” , the words “or a Governmental authority or a Government Entity” shall be omitted;
- (ii) against serial number 3A, in column (3), in the heading “ Description of Services “, the words “or a Governmental authority or a Government Entity” shall be omitted;
- (iii) against serial number 15, in column (3), in the heading “ Description of Services “, after item (c), the following shall be inserted, namely, -  

“Provided that nothing contained in items (b) and (c) above shall apply to services supplied through an electronic commerce operator, and notified under sub-section (5) of Section 9 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017).”;
- (iv) against serial number 17, in column (3), in the heading “ Description of Services “, after item (e), the following shall be inserted, namely, -  

“Provided that nothing contained in item (e) above shall apply to services supplied through an electronic commerce operator, and notified under sub-section (5) of Section 9 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017).”

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 1st day of January, 2022.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,  
GAURAV DWIVEDI, Principal Secretary.

अटल नगर, दिनांक 19 जनवरी 2022

## अधिसूचना

संख्या 17/2021 – राज्य कर (दर)

क्रमांक एफ 10-03/2022/वाक/पांच (12).— छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की धारा 9 की उप धारा ( 5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , राज्य सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर , एतद्वारा, छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना सं. 17/2017-राज्य कर (दर) क्रमांक एफ-10-43/2017/वाक/पांच(85) दिनांक 28 जून, 2017, जिसे छत्तीसगढ़ के राजपत्र (असाधारण) में, क्रमांक 252 तारीख 29 जून, 2017 में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है , अर्थात्:-

1. उत्कप अधिसूचना में प्रथम पैराग्राफ में,-

(i) उपवाक्य(i) में, शब्दों “और मोटर साइकिल” के स्थान पर, शब्दों और प्रतीक, मोटर साइकिल, ओमनिबस या अन्य मोटर यान” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) उपवाक्य(iii) के बाद, निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“(iv) विशिष्ट परिसर में स्थित रेस्तरां, इटिंग ज्वाइंट्स आदि द्वारा आपूर्ति की जाने वाली रेस्तरां सेवाओं के अलावा “रेस्तरां सेवा” की आपूर्ति।”

2. स्पष्टीकरण में,-

(1) मद (ख) में, शब्दों, प्रतीकों, अंकों और कोष्ठकों “और “मोटर साइकिल” का वही अर्थ होगा जो उनका क्रमशः मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 2 के खंड (22), खंड (25) और (26) में है” के स्थायन पर, प्रतीकों, शब्दों, अंकों और कोष्ठकों “मोटर साइकिल,” “मोटरयान” और “ओमनिबस” का वही अर्थ होगा जो मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 2 के क्रमशः खंड (22), (25), (27), (28) और (29) में दिया गया है”, को प्रतिस्थापित किया जाएगा

(2) मद (ख) के बाद, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“(ग) “विशिष्ट परिसर” से अभिप्राय ऐसे परिसरों से है , जो ऐसे ‘होटल की व्यावस्थांकी सेवाएं प्रदान करते हैं जिनका ठहरने की एक इकाई का घोषित टैरिफ सात हजार पांच सौ रुपए प्रति इकाई प्रतिदिन से अधिक या समतुल्य हो।”

2. इस अधिसूचना को 1 जनवरी, 2022 से लागू माना जाएगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

अटल नगर, दिनांक 19 जनवरी 2022

क्रमांक एफ 10-03/2022/वाक/पांच(12).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-03/2022/वाक/पांच(12), दिनांक 19-01-2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

Atal Nagar, the 19th January 2022

NOTIFICATION

No. 17/2021 – State Tax (Rate)

No. F 10-03/2022/CT/V(12).— In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 9 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification No. 17/2017–State Tax (Rate), No. F-10-43/2017/CT/V(85), Chhattisgarh Commercial Tax Department, dated the 28th June, 2017, published in the Gazette (Extraordinary) of Chhattisgarh, No. 252, dated the 29th June, 2017, namely:-

1. In the notification,-
  - (i) in clause (i), for the words “and motor cycle;”, the words “, motor cycle, omnibus or any other motor vehicle;” shall be substituted;
  - (ii) after clause (iii), the following clause shall be inserted, namely:-

“(iv) supply of restaurant service other than the services supplied by restaurant, eating joints etc. located at specified premises.”
2. In the said notification, in Explanation, -
  - (i) in item (b), for the words, brackets, numbers and figures “and “motor cycle” shall have the same meanings as assigned to them respectively in clauses (22), (25) and (26) of section 2 of the Motor Vehicle Act, 1988 (59 of 1988).”, the words, brackets, numbers and figures, “, motor cycle, motor vehicle and omnibus shall have the same meanings as assigned to them respectively in clauses (22), (25), (27), (28) and (29) of section 2 of the Motor Vehicle Act, 1988 (59 of 1988).” shall be substituted;
  - (ii) after item (b), the following shall be inserted namely, -

“(c) specified premises means premises providing hotel accommodation service having declared tariff of any unit of accommodation above seven thousand five hundred rupees per unit per day or equivalent.”
2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 1st day of January, 2022.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,  
GAURAV DWIVEDI, Principal Secretary.